

BACHELOR'S DEGREE PROGRAMME

(BDP)

Term-End Examination

December, 2024

(Elective Course : Commerce)

ECO-11 : ELEMENTS OF INCOME TAX

Time : 2 Hours

Maximum Marks : 50

Note : *Question No. 1 is compulsory. Attempt any **three** questions from the remaining questions.*

1. Compute the total income of Mr. Amit Chaudhary from the following particulars of his income for the assessment year 2023-24 : 14

₹

(i)	Salary per month	15,000
(ii)	Dividend received from an Indian company	10,000
(iii)	Share of profit from H. U. F.	12,000
(iv)	Dividend from a co-operative society	6,000
(v)	Rental income from the house	10,000

2. (a) Distinguish between Statutory provident fund and Recognized provident fund. 6
- (b) Distinguish between short-term and long-term capital gains. 6
3. On the basis of the following information furnished by Mr. Kalia, determine annual value of the house for assessment year 2023-24 : 12
- (i) Two-third portion of the house is self-occupied.
- (ii) One-third portion of the house let out for ₹ 5,000 p.m.
- (iii) During the previous year, the let out portion remained vacant for four months and the tenant did not pay the rent for one month. The landlord could not fulfil the conditions regarding claims for unrealised rent.
- (iv) Municipal tax paid ₹ 33,000.
- (v) Municipal value ₹ 1,30,000.
4. What do you mean by clubbing of income ?
What are the circumstances in which the income of one person is treated as income of another ? 12

5. (a) What steps are involved in calculation of total taxable income of an individual ? 6
- (b) What do you understand by Total Income ?
How is it different from Gross Income ?
Explain with examples. 6
6. Write short notes on any *two* of the following :
6+6
- (a) Causal Income
- (b) PAN (Permanent Account Number)
- (c) Entertainment Allowance
- (d) Exempted Income U/S 10

ECO-11

स्नातक उपाधि कार्यक्रम (बी.डी.पी.)

सत्रांत परीक्षा

दिसम्बर, 2024

ऐच्छिक पाठ्यक्रम : वाणिज्य

ई.सी.ओ.-11 : आयकर के मूल तत्व

समय : 2 घण्टे

अधिकतम अंक : 50

नोट : प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। शेष प्रश्नों में से किन्हीं
तीन प्रश्नों के उत्तर लिखिए।

1. निम्नलिखित आय के विवरणों से कर-निर्धारण वर्ष
2023-24 के लिए श्री अमित चौधरी की कुल आय
की गणना कीजिए :

14

₹

- | | |
|--|--------|
| (i) वेतन प्रति माह | 15,000 |
| (ii) भारतीय कम्पनी से प्राप्त लाभांश | 10,000 |
| (iii) हिन्दू अविभाजित परिवार से लाभ
का हिस्सा | 12,000 |

(iv) सहकारी समिति से लाभांश 6,000

(v) मकान सम्पत्ति से किराया 10,000

2. (क) सांविधिक भविष्य निधि तथा मान्यता प्राप्त भविष्य निधि के बीच अन्तर स्पष्ट कीजिए। 6

(ख) अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन पूँजी लाभों के बीच अन्तर स्पष्ट कीजिए। 6

3. श्री कालिया द्वारा निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर कर-निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए उसके मकान के वार्षिक मूल्य की गणना कीजिए : 12

(i) मकान का $\frac{2}{3}$ हिस्सा स्वयं के रहने में प्रयोग किया।

(ii) मकान का $\frac{1}{3}$ हिस्सा ₹ 5,000 प्रति माह किराए पर दिया।

(iii) गतवर्ष के दौरान किराए पर दिया गया हिस्सा चार माह खाली रहा और किरायेदार ने एक माह के किराया का भुगतान नहीं किया। मकान मालिक वसूल नहीं हुए किराए की राशि का दावा करने की शर्तों को पूरा नहीं करता है।

(iv) नगरपालिका कर का भुगतान ₹ 33,000।

(v) नगरपालिका मूल्य ₹ 1,30,000।

4. आय के मिलान (इकट्ठा करना) से आप क्या समझते हैं ? किन परिस्थितियों में एक व्यक्ति की आय दूसरे की आय मानी जाती है ? 12

5. (क) किसी व्यक्ति की कुल कर-योग्य आय की गणना में कौन-से चरण शामिल हैं ? 6

(ख) कुल आय से आप क्या समझते हैं ? यह सकल आय से किस प्रकार भिन्न है ? उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। 6

6. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ

लिखिए :

6+6

(क) आकस्मिक आय

(ख) स्थायी खाता संख्या (PAN)

(ग) मनोरंजन भत्ता

(घ) करमुक्त आय धारा 10 के अंतर्गत

× × × × × × ×